

- (इ) जीवन बीमा कानून 1956 की विशेषताएं बतलाइये। 4
- (फ) बीमा व्यवसाय के नियोगिता के लाभ लिखिये। 4
- (ग) बीमा सलाहकार समिति के बारे में लिखिये। 3
- (ह) सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 के अनुसार सामान्य बीमा के कार्य स्पष्ट कीजिये। 3

AQ-1248

**B.Com. (Part—III) Examination
FUNDAMENTALS OF INSURANCE
COMBINATION—III
(Banking & Insurance)**

Time—Three Hours] [Maximum Marks—70

Note :—(1) All questions are compulsory.

(2) All questions carry equal marks.

1. (a) Write brief history of Insurance. 4
- (b) Explain the purpose of Insurance. 4
- (c) Explain the scope of Insurance. 3
- (d) Explain “Insurance as a social security tool”. 3

OR

- (e) What is Insurance ? 4
- (f) Discuss the need of Insurance. 4
- (g) State the principles of Insurance. 3
- (h) Explain the nature of Insurance. 3
2. (a) State meaning of an Agent. Explain the required qualification for an Insurance Agent. 14

OR

UBS—48552

1

(Contd.)

- (b) Explain the code of conduct of an Agent. Give the causes of termination of an Agency. 14
3. (a) Explain the importance of 'Life Insurance'. 4
 (b) What is Fire Insurance ? 4
 (c) State the scope of Crop Insurance. 3
 (d) State the nature of Marine Insurance. 3
- OR**
- (e) What is Crop Insurance ? 4
 (f) Explain any Principles of 'Life Insurance'. 4
 (g) Give the Importance of Accident Insurance. 3
 (h) Explain the meaning of Fire Insurance. 3
4. (a) Explain the concept of Insurance Marketing. What are the important activities of Marketing in the Insurance Business ? 14

- OR**
- (b) What is Actuarial ? Explain the functions of 'Actuary'. 14
5. (a) State the features of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). 4
 (b) Give the amendments of 2002 of Insurance Regulatory and Development Authority of India. 4

- (क) फसल बीमा की व्याप्ति बताइये। 3
 (ड) सागरी बीमा के स्वरूप बतलाइये। 3
- अथवा**
- (इ) 'फसल' बीमा क्या है ? 4
 (फ) 'जीवन बीमा' के तत्व स्पष्ट कीजिये। 4
 (ग) 'अपघात' बीमा का महत्व बतलाइये। 3
 (ह) 'अग्नि' बीमा का अर्थ स्पष्ट कीजिये। 3
4. (अ) बीमा विपणन की संकल्पना स्पष्ट कीजिये। बीमा व्यवसाय में विपणन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ कौनसी हैं ? 14
- अथवा**
- (ब) 'बीमांकन' क्या है ? बीमांकन के कार्य स्पष्ट कीजिये। 14
5. (अ) बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण (IRDA) की विशेषताएं बताइये। 4
- (ब) बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण के 2002 के संशोधन को स्पष्ट कीजिये। 4
- (क) निजी बीमा कंपनियों का नियंत्रण कैसे किया जाता है ? 3
- (ड) सामान्य बीमा व्यवसाय कानून 1972 की विशेषताएं लिखिये। 3
- अथवा**

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।		(c) How private insurance companies are controlled ? 3
(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।		
1. (अ) बीमा का इतिहास संक्षेप में लिखिये।	4	
(ब) बीमा के प्रयोजन स्पष्ट कीजिये।	4	
(क) बीमा की व्याप्ति स्पष्ट कीजिये।	3	
(ड) 'बीमा सामाजिक सुरक्षा का साधन है।' स्पष्ट कीजिये।	3	
अथवा		
(इ) बीमा क्या है ?	4	
(फ) बीमा की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।	4	
(ग) बीमा के नियम लिखिये।	3	
(ह) बीमा का स्वरूप स्पष्ट कीजिये।	3	
2. (अ) बीमा अधिकार्ता का अर्थ बताइये। बीमा प्रतिनिधि के लिये आवश्यक पात्रता स्पष्ट कीजिये।	14	
अथवा		
(ब) बीमा अधिकार्ता की आचार संहिता स्पष्ट कीजिये। बीमा अधिकर्तृत्व निलंबन के कारण बतलाइये।	14	
3. (अ) जीवन बीमा का महत्व बतलाइये।	4	
(ब) अग्नि बीमा क्या है ?	4	

- (c) How private insurance companies are controlled ? 3
- (d) Write the features of General Insurance Business Act, 1972. 3
- OR**
- (e) Give the features of the Life Insurance Act, 1956. 4
- (f) Write the advantages of Privatisation of Insurance Business. 4
- (g) Write about the Insurance Advisory Committee, 3
- (h) Explain the function of General Insurance stated under General Insurance Act, 1972. 3

(मराठी माध्यम)

- सूचना :—(1) सर्व प्रश्न अनिवार्य आहेत.
- (2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.
1. (अ) विम्याचा संक्षिप्त इतिहास लिहा. 4
- (ब) विम्याचे हेतु स्पष्ट करा. 4
- (क) विम्याची व्याप्ति स्पष्ट करा. 3

(३) "विना एक सामाजिक सुरक्षिततेचे साधण आहे." स्पष्ट करा.	3	(ग) अपघात विम्याचे महत्व सांगा.	3	
किंवा		(ह) अग्रिंदी विम्याचा अर्थ स्पष्ट करा.	3	
(इ) विमा म्हणजे काय ?	4	4.	(अ) विमा विपणनाची संकल्पना स्पष्ट करा. विमा व्यवसायातील विपणनाच्या महत्वपूर्ण कृती कोणत्या आहेत ?	14
(फ) विम्याच्या आवश्यके बद्दल चर्चा करा.	4	किंवा		
(ग) विम्याची तत्वे लिहा.	3	(ब) विमांकन म्हणजे काय ? 'विमांकनाची' कार्य स्पष्ट करा.	14	
(ह) विम्याचे स्वरूप स्पष्ट करा.	3	5.	(अ) विमा नियमन व विकास प्राधिकरणाची (IRDA) वैशिष्ट्ये सांगा.	4
2. (अ) विमा अभिकर्त्याचा (Agent) अर्थ सांगा. विमा अभिकर्ता होण्यासाठी आवश्यक पात्रता स्पष्ट करा.	14	(ब) विमांकन विमा नियमन व विकास प्राधिकरणाच्या 2002 चे संशोधन सांगा.	4	
किंवा		(क) खाजगी विमा कंपण्यांचे नियंत्रण कसे केले जाते ?	3	
(ब) विमा अभिकर्त्याची आचारसंहिता स्पष्ट करून. विमा अभिकर्तृत्वाच्या (Agency) समाप्तीची कारणे सांगा.	14	(ड) सामान्य विमा व्यवसाय कायदा 1972 ची वैशिष्ट्ये लिहा.	3	
3. (अ) 'जिवन विम्याचे' महत्व स्पष्ट करा.	4	किंवा		
(ब) आगी विमा म्हणजे काय ?	4	(इ) जिवन विमा कायदा 1956 ची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा.	4	
(क) पीक विम्याची व्याप्ती सांगा.	3	(फ) विमा व्यवसायाच्या खाजगीकरणाचे फायदे लिहा.	4	
(ड) सागरी विम्याचे स्वरूप स्पष्ट करा.	3	(ग) विमा सल्लागार समितीबद्दल लिहा.	3	
किंवा		(ह) सामान्य विमा कंपनी व्यवसाय कायदा 1972 नुसार सामान्य विमा व्यवसायाची कार्य सांगा.	3	
(इ) पीक विमा म्हणजे काय ?	4			
(फ) 'जिवन विम्याचे' तत्वे स्पष्ट करा.	4			